

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 18 दिसंबर 2018 को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के 99 स्पोर्ट्स मीट के समापन समारोह का आयोजन एस0पी0ग्राउंड में सम्पन्न हुआ। के0जी0एम0यू0 के एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन 16 दिसंबर को किया गया था। समापन समारोह में इस खेल प्रतियोगिता के भाग लेने वाले डाक्टर्स, फैंकेल्टी एवं छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर समापन समारोह के मुख्य अतिथि के0जी0एम0यू0 के मा0 कुलपति प्रोफेसर एम0एल0बी0 भट्ट ने 99 स्पोर्ट्स मीट के सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिना स्वस्थ रहे किसी भी खेल या किसी अन्य प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, खेलकूद एवं संतुलित एवं पौष्टिक भोजन के सेवन को जरूरी बताया। इस अवसर पर के0जी0एम0यू0 एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो0 ए0पी0टिक्कू भी उपस्थित रहे।

मैराथन की क्रॉस कंट्री रेस बॉयज में शुभम कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर आकाश कुमार और तीसरे स्थान पर पंकज निषाद रहे। इसी प्रकार से क्रॉस कंट्री रेस गर्ल्स में अनुकृति यादव पहले

स्थान पर रही तो अंशिका ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, तीसरे स्थान पर सुरक्षा आर्या रहीं।

इसके साथ ही फैकल्टी के लिए आयोजित मैराथन में डॉ. अंजनी कुमार पाठक प्रथम स्थान पर रहे तो डॉ. कमलेश्वर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, तीसरे स्थान पर डॉ. विजय शाक्य रहे। फैकल्टी वीमेन मैराथन में डॉ. रश्मि कुशवाहा प्रथम और डॉ. प्रज्ञा ने दूसरा स्थान हासिल किया, इसके साथ ही मैराथन के सबसे छोटी उम्र के प्रतिभागी मॉरिक को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया।

बैडमिंटन प्रतियोगिता में सीनियर फैकल्टी मेंस में डॉ. शादाब ने पहला स्थान हासिल किया, दूसरे स्थान पर डॉ. विनोद जैन रहे। बैडमिंटन मेंस फैकल्टी प्रतियोगिता में डॉ. लक्ष्य ने पहला स्थान प्राप्त किया तो डॉ. अंजनी कुमार पाठक दूसरे स्थान पर रहे। बैडमिंटन वीमेन फैकल्टी प्रतियोगिता में डॉ. प्रज्ञा ने प्रथम और डॉ. माला सागर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही फैकल्टी मिक्स प्रतियोगिता में डॉ. शादाब और डॉ. पूजा ने प्रथम तथा डॉ. विनोद जैन और डॉ. माला सागर ने दूसरा स्थान हासिल किया।

इसी प्रकार से 100 मीटर रेस ब्वायज कैटेगरी में प्रथम स्थान पंकज निषाद व दूसरा स्थान गौर मोहन ने हासिल किया। वही 200 मीटर की दौड़ में भी पंकज निषाद ने पहला और शुभम कुमार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

इसी प्रकार से गर्ल्स कैटेगरी में 200 मीटर दौड़ में नीतिका ने प्रथम स्थान, अंशिका ने द्वितीय स्थान व श्रुति ने तृतीय स्थान हासिल किया।